



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25

नई दिल्ली, शनिवार, जून 21, 2003 (ज्येष्ठ 31, 1925)

No. 25

NEW DELHI SATURDAY, JUNE 21, 2003 (JYAISTHA 31, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जून 2003

सं० आर.एस०/3(VII)/2003/23-कार्मिक—श्री राजीव इस्सर, संसदीय भाषांतरकार ने गृह मंत्रालय से कार्यमुक्त होने पर, इस सचिवालय में 4 जून, 2003 के पूर्वार्द्ध से कार्यभार संभाल लिया है।

प्र० रं० गुहाराय, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 जून 2003

सं० आर०एस०/1454/स्था० (कार्मिक)—श्री राजीव इस्सर, स्थायी संसदीय भाषांतरकार को इस सचिवालय से 6 जून 2003 के अपराह्न से कार्यमुक्त कर दिया गया है ताकि वह विदेश सेवा निबंधन के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए यू०एन०डी०पी० में प्रोग्राम एसोसिएट की नियुक्ति ले सके।

1-112G1/2003

श्री इस्सर की प्रतिनियुक्ति अवधि का अवकाश वेतन अंशदान और पेंशन अंशदान स्वयं उनके द्वारा दिया जाएगा। इस संबंध में अंशदानों के व्यौरे की गणना की जाएगी और श्री इस्सर को यथासमय सूचित कर दिया जाएगा।

जे० जी० नेगी, अवर सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 जून 2003

सं० पीएफ 1036(3)/ए एन-I/जी एन-4935/2003—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री ओम प्रकाश अरोड़ा, अवर सचिव 31 मई, 2003 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एम० राजशोपालन नायर, संयुक्त सचिव

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई 2003

फा० सं० 1(8)/2002-प्रशासन I--श्री एल० एम० गोयल, भा० प्र० से० (एच० वाई० : 1966), सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31-5-2003 के पूर्वाह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

देवराज तिवारी, अपर सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 7 मई 2003

सं० ए-32014/2/2003-प्रशा०-I-- इस मंत्रालय के दिनांक 2-4-2003 के आदेश सं० 12015/2/जे एजी/2003 आई एस एस के अनुसरण में, राष्ट्रपति भारतीय सांख्यिकी सेवा के निम्नलिखित वरिष्ठ समयमान (एस टी सी) के अधिकारियों को 2-4-2003 से अगले आदेशों तक 12,000-16,500 रु० के वेतनमान में नियमित आधार पर सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जे ए जी) में नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं०	नाम	ह्यूटी जारी करने की तारीख
1.	श्री पाला सिंह टांक	2-4-2003
2.	श्री शेर सिंह	2-4-2003
3.	श्री राकेश कुमार	2-4-2003
4.	श्री गुरप्यार सिंह शेखों	2-4-2003
5.	श्री योगेन्द्र सिंह	2-4-2003
6.	श्री टी० भास्करन	2-4-2003
7.	श्री ए० सी० शर्मा	2-4-2003
8.	श्री सुनील जैन	2-4-2003
9.	श्री एस० पी० गैरा	2-4-2003
10.	श्रीमती ममता सक्सेना	2-4-2003
11.	श्री विद्या प्रकाश	2-4-2003
12.	श्रीमती जी० एस० लक्ष्मी	2-4-2003

एस० सी० दास, वरिष्ठ विश्लेषक

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 जून 2003

सं० 193/22/3/2003(बी०सी०वी०)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर भारत निर्वाचन आयोग में अनुभाग अधिकारी, श्री बी० सी० वर्मा 31/5/2003 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गये।

नरेन्द्र नाथ बटोलिया, अवर सचिव

सं० 193/22/2/2003(टी०वी०)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर भारत निर्वाचन आयोग में अनुभाग अधिकारी, श्री थोमस वर्गीस 31-5-2003 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गये।

नरेन्द्र नाथ बटोलिया, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई 2003

सं० 32013/2/94-प्रशा०-IV (वि० का०)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 6 मई, 2003 के कार्यालय ज्ञापन सं० 31/7/2002-ईओ (एमएम-I) के अनुसरण में राष्ट्रपति, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और प्रौद्योगिकी विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में भारी उद्योग विभाग में अवर सचिव (स्वस्थाने) श्रीमती रत्ना ललिता को दिनांक 22 मई, 2003 के पूर्वाह्न से सात वर्षों की अवधि के लिए अथवा उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

प्रकाश चंद्रा, उप सचिव

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 1 मई 2003

सं० एफ-2/6/2001-पू०क्षे०वि०--राष्ट्रपति श्री कृष्ण कुमार को दिनांक 3-4-2003 के (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक 12000-375-16500 रुपए के वेतनमान में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग में संयुक्त निदेशक के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

टी० के० मुरुगन, उप सचिव (प्रशा०)

सं० एफ० 2/71/2003 पू०क्षे०वी०वी०--राष्ट्रपति, श्री एच०आर० करारा को दिनांक 7-5-2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक 10000-325-15200 रुपये के वेतनमान में अवर सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

टी०के० मुरुगन, उप सचिव (प्रशा०)

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 जून 2003

सं० 14012/4/2003 अ०भा०से० III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के

नियम 3-क द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके भारतीय प्रशासनिक सेवा के हिमाचल प्रदेश संलग्न के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों उल्लिखित तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	वर्ष	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री पुष्पेन्द्र राजपूत	1999	19-09-2001
2.	डॉ० अमन दीप गर्ग	1999	19-09-2001

अकील अहमद, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 जून 2003

सं० 403/2/2003 ए०बी०डी० IV—राष्ट्रपति, गृह-मंत्रालय के अधीन दण्डिक न्याय सुधार-समिति में पहले परामर्श-दाता के रूप में कार्यरत श्री सी० एम बासबोरिया को दिनांक 20-5-2003 के पूर्वाह्न से, संबिदा के आधार पर, आयु सीमा और अन्य संबद्ध नियमों में ढील देकर, न्यायमूर्ति एस० एन० फूकन-जाँच-आयोग में, उपर्युक्त आयोग के कार्यकाल तक, भारत सरकार के अपर सचिव की रैंक में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

जुगल किशोर, अवर सचिव

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 27 मई 2003

फा० सं० ए-32012/13/2002-प्रशा०-II—भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्थापना

सं० 7/2002 (32012/10/99-प्रशा 11)—राष्ट्रपति, भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा के अधिकारी श्री एस० एन० सिंह को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में 6-6-2000 से प्रभावी (अर्थात् जब से उनके आसन्न कनिष्ठ, श्री राजन सूरि को गैर-कार्यात्मक प्रवर ग्रेड प्रदान किया गया था) और अगले आदेश जारी होने तक गैर-कार्यात्मक प्रवर ग्रेड सहित प्रदान करते हैं।

2. इस आदेश का कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में अधिकारियों के बरिष्ठता-क्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

के० किपगेन, अवर सचिव

दिनांक 28 मई, 2003

सं० 2003 का 8 (फा० सं० ए-38012/6/2003-प्रशा०-2)—राष्ट्रपति, श्री बी० के० गुप्ता, उप आयुक्त भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा समूह "क"

की स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति दिनांक 1-6-2003 (पूर्वाह्न) से स्वीकार करते हैं।

के० किपगेन, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 9 जून 2003

सं० एफ-2/10/98-डि०-1—इस विभाग की दिनांक 22-10-2002 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में राष्ट्रपति, भारत सरकार टंकताल में कारखाना प्रबंधक श्री माधव राव और श्री बी० पी० चक्रवर्ती की बरिष्ठ कारखाना प्रबंधक के रूप में तदर्थ नियुक्ति को 31-3-2003 से और एक वर्ष अथवा पद को नियमित आधार पर भरे जाने, इनमें जो भी पहले हो, तक के लिए बढ़ाते हैं।

2. उक्त तदर्थ नियुक्ति में संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति आधार पर नियुक्ति या वरीयता संबंधी दावे का कोई अधिकार नहीं होगा।

अपराजिता चौधरी, अवर सचिव

(बैकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई 2003

शुद्धिपत्र

फा० सं० 8/1/02-डी आर टी—कृपया इस प्रभाग के दिनांक 28 फरवरी 2003 के समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन किया जाए ;

अधिसूचना की प्रथम पंक्ति में :

के लिए

पढ़ें

श्री शिव कुमार बैरवा

श्री शिव राम बैरवा

एस० पी० सिंह, अवर सचिव

दिनांक 4 जून, 2003

सं० 13/1/02-डी० आर० टी०—बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऋण वसूली अधिकरण, हैदराबाद में पीठासीन अधिकारी श्री टी० रविशंकर को श्री के० सत्यानन्द की छुट्टी की अवधि के दौरान अतिरिक्त पारिश्रमिक लिए बिना 25 मई, 2003 से 8 जुलाई, 2003 तक अथवा अगले आदेश होने तक अपने कार्य के साथ-साथ ऋण वसूली अधिकरण, बंगलौर और ऋण वसूली अधिकरण, एर्णाकुलम के पीठासीन अधिकारियों के कार्यभार को देखने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

एस० पी० एस० सांगवान, अवर सचिव

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जून 2003

सं० ए-12025/1/98-ई०जी०—राष्ट्रपति, भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा के निम्नलिखित कनिष्ठ टाइम स्केल अधिकारियों की उनके नाम के सामने दी गई तारीखों से नियुक्त करते हैं :—

क्र०सं०	नाम	से प्रभावी
1.	के० एस० गोपीनाथ नारायण	5-9-1996
2.	सुश्री रीतिका भाटिया	7-9-1997
3.	सुश्री अंजलि सिंह	5-9-1996
4.	मनीष कुमार	5-9-1996
5.	सुश्री मोनिका वर्मा	5-9-1996
6.	पुरुषोत्तम तिवारी	25-8-1997
7.	संजीव कुमार	27-12-1996(अपराह्न)
8.	बिभुदत्ता बसन्तिया	7-9-1997(अपराह्न)
9.	सुश्री तनुजा सुबोध मित्तल	4-9-1996(अपराह्न)
10.	वी० ए० पटवर्धन	4-9-1996(अपराह्न)
11.	केरल प्रसाद यादव	7-9-1997
12.	जयदीप कुमार डी० ततामिया	7-9-1997
13.	के० पी० आनन्द	7-9-1997
14.	अब्दुल राउफ अंसारी	4-9-1997
15.	सुश्री शान्ति प्रिया एस०	6-9-1996
16.	डी० आर० पाटिल	7-9-1997
17.	सुश्री मधुमिता मण्डल	7-9-1997(अपराह्न)
18.	सुश्री अनिता शाह	5-9-1996
19.	सुश्री अनीम चेरियन	5-9-1996(अपराह्न)
20.	सी० नेबुचेजियन	4-9-1996
21.	एस० सुनील राज	5-9-1996
22.	प्रवीन्द्र यादव	1-9-1997
23.	एल० हेंगसिंग	7-9-1997

2. सभी 23 अधिकारी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन कार्यालय में कार्यरत हैं।

महेन्द्र कुमार, उप सचिव

सं० ए-12025/3/2003 ई० जी०—राष्ट्रपति, भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा के निम्नलिखित कनिष्ठ टाइम

स्केल अधिकारियों को उनके नाम के सामने दी गई तारीखों से नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	नाम	से प्रभावी
1.	सुश्री प्राची मिश्रा	2-9-2001
2.	अमिताभ प्रसाद	-वही-
3.	सुश्री अलेटी माधवी	-वही-
4.	शीरजो चटर्जी	-वही-
5.	सुश्री मनी के०	-वही-
6.	सुश्री अर्चना गुर्जर	-वही-
7.	सुबु आर०	-वही-
8.	संजय कुमार कौशल	18-12-2001

2. सभी 8 अधिकारी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन कार्यालय में कार्यरत हैं।

महेन्द्र कुमार, उप सचिव

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 जून 2003

सं० पीएफजी/(653)/2002-प्रशा०-II—संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्यक्ष भर्ती के द्वारा उनका चयन होने पर राष्ट्रपति, श्री विष्णु पांडुरंग काटकर को 29-10-2002 (पूर्वाह्न) से भारतीय कंपनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) में नियुक्त करते हैं।

2. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 609 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने भारतीय कंपनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) अधिकारी, श्री विष्णु पांडुरंग काटकर को 29-10-2002 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक कंपनी रजिस्ट्रार दिल्ली के कार्यालय में सहायक कंपनी रजिस्ट्रार के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त किया है।

रवीन्द्र दत्त, अवर सचिव

सं० पीएफजी/(656)/2002-प्रशा०-II—संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्यक्ष भर्ती के द्वारा उनका चयन होने पर राष्ट्रपति, श्रीमती एस० मीनाक्षी को 25-11-2002 (पूर्वाह्न) से भारतीय कंपनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) में नियुक्त करते हैं।

2. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 609 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने भारतीय कंपनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) अधिकारी, श्रीमती एस० मीनाक्षी को 25-11-2002 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक कंपनी रजिस्ट्रार, चेन्नई के कार्यालय में सहायक कंपनी रजिस्ट्रार के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त किया है।

रवीन्द्र दत्त, अवर सचिव

सं० पीएफजी/(659)/2002-प्रशा० II—संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्यक्ष भर्ती के द्वारा उनका चयन होने पर राष्ट्रपति श्री संजय कुमार गुप्ता को 24-10-2002 (पूर्वाह्न) से भारतीय कंपनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) में नियुक्त करते हैं।

2. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 609 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने भारतीय कंपनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) अधिकारी श्री संजय कुमार गुप्ता को 24-10-2002 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक कंपनी रजिस्ट्रार कर्नाटक बंगलूर के कार्यालय में सहायक कंपनी रजिस्ट्रार के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त किया है।

रवीन्द्र दत्त, अवर सचिव

सं० पीएफजी/(661)/2002-प्रशा० II—संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्यक्ष भर्ती के द्वारा उनका चयन होने पर राष्ट्रपति श्री मनोरंजन दास को 30-10-2002 (पूर्वाह्न) से भारतीय कंपनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) में नियुक्त करते हैं।

2. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 609 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने भारतीय कंपनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) अधिकारी श्री मनोरंजन दास को 30-10-2002 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक कंपनी रजिस्ट्रार जालंधर के कार्यालय में सहायक कंपनी रजिस्ट्रार के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त किया है।

रवीन्द्र दत्त, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 2003

सं० 6/2003 (सं० ए-42011/36/2000-ई-1)—सम्मिलित सीमित विभागीय परीक्षा 2001, के आधार पर वर्ष 2001 के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में शामिल करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वाणिज्य विभाग के संवर्ग में स्थाई सहायक श्री चमन लाल गुलेरिया के नामांकन के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति उन्हें दिनांक 26 मई 2003 (पूर्वाह्न) से वाणिज्य विभाग के संवर्ग में अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

2. श्री चमन लाल गुलेरिया, अनुभाग अधिकारी को श्री पांडे प्रदीप कुमार, अनुभाग अधिकारी के स्थान पर स्टेटस सेल तैनात किया जाता है।

एन० पी० द्विवेदी, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 जून 2003

सं० 12/15/93-ई० आई० एण्ड ई० पी०—राष्ट्रपति, शत्रु-सम्पत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एस० एस० संघु, संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार मुम्बई को श्रीमती रुबी श्रीवास्तव, जो प्रशिक्षण पर हैं, के स्थान पर दिनांक 29 मई 2003 पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक के लिए उनके वर्तमान कार्यभार के अतिरिक्त भारत के शत्रु-सम्पत्ति अभिरक्षक, मुम्बई के पद पर नियुक्त करते हैं।

राज सिंह, उप सचिव

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 मई 2003

सं० ए-12022/1/2003-व्य-1—राष्ट्रपति, श्री उमेश कुमार, आई० ए० एस० (आर० जे० 83) को 19 मई, 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

ज० ज० कौर, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई 2003

सं० ए-12011/10/93-स्थापना—राष्ट्रपति ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में वरिष्ठ विश्लेषक (का० अ०) के रूप में श्री पंकज विठल की तदर्थ नियुक्ति 1-7-2002 से 28-2-2003 तक बढ़ा दी है। उपर्युक्त समयवृद्धि के समाप्त होने के बाद श्री पंकज विठल को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के मूल पद पर 1-3-2003 से वापस पदावनत कर दिया गया है।

एल० एस० नेगी, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 मई 2003

सं० 2(10)/2001-स्थापना (.)—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2001 के आधार पर नामित किए जाने पर योजना आयोग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थाई सहायक श्री दर्शन कुमार सोलंकी (रैंक सं० 24), को 23 मई, 2003 पूर्वाह्न से विभागीय परीक्षा कोटा के अंतर्गत इस्पात मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की अनुभाग अधिकारी की 2001 की चयन सूची में शामिल करते हैं।

2. उन्हें इस्पात मंत्रालय में इसी दिनांक से नियुक्ति आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

बाबू राम, अवर सचिव

विनिवेश मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 जून 2003

सं० 20011/52/2001-प्रशा०-राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, केन्द्रीय प्रचालन अशुद्धि सेवा संग्रह (विलयित ग्रेड "क एवं ख") के नियमित निजी सचिव श्री मिलन ब्रह्मचारी को 10-04-2003 के पूर्वाह्न से 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में को-टर्मिनस आधार पर अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा विनिवेश मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी० पी० गुप्ता, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 मई 2003

सं० ए-12012/2/2003 पी-II (.)-राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी श्री एम० साहू (गुजरात) को 30 मई, 2003 की पूर्वाह्न से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में 18,400-22,400/- रुपये के वेतनमान में संयुक्त सचिव के पद पर सहस्र नियुक्त करते हैं।

जे० पी० सिंह, उप सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जून 2003

सं० ए-12025/7/1996-सीएचएस-IV-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० सुनील रंगा को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनोत्तर विशेषज्ञ उप संवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-2 में परिवीक्षा पर नियुक्त करके उन्हें 29 मार्च, 1996 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक सफरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में पैथोलोजिस्ट के पद पर तैनात करते हैं।

यू० सी० नांगिया, उप सचिव

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली दिनांक 4 जून 2003

सं० ए-12025/16/2001-सी एच एस-IV-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ० हरमोन्द सिंह इस्तेर को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनोत्तर विशेषज्ञ उप संवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-2 में परिवीक्षा पर नियुक्त करके उन्हें 13-11-2002 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक 10,000-15,200 रु० के वेतनमान में सफरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में काडियोलोजिस्ट के पद पर तैनात करते हैं।

यू० सी० नांगिया, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 जून 2003

सं० ए-12025/85/96-सी०एच०एस०-I-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० साइबल भट्टाचार्य को 27-02-1998 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13,500 रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० साइबल भट्टाचार्य को श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं० ए-12025/84/97-सी०एच०एस०-I-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० सत्यजीत सेन को 17-03-1998 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13,500 रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० सत्यजीत सेन को श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं० ए-12025/28/2000-सी०एच०एस०-I-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० आर० देवानंदा को 2-3-2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13,500 रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० आर० देवानंदा को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 5 जून 2003

सं० सी० 14011/26/97-सी०एच०एस०-I-डा० (श्रीमती) रमा श्रीनिवासन ने अपना त्यागपत्र मंजूर होने के परिणाम-स्वरूप 14-1-2002 के पूर्वाह्न से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया, ऐसा माना जाता है।

2. दिनांक 28-1-1996 से 14-1-2002 (पूर्वाह्न) की अवधि को अकार्य दिवस के रूप में समझा जाए।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 2003

सं० 12022/3/2003-स्था-1—राष्ट्रपति, श्री अजय मेहता मा० प्र० से० (महाराष्ट्र : 84) को कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) में 1-5-2003 के पूर्वाह्न से उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि तक अर्थात् 2-4-2005 तक या अगामी आदेशों तक, इसमें जो भी पहले हो, के लिये 15,100-400-18,300 रु० के वेतनमान में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

के० डी० उम्रेती, अवर सचिव

दिनांक 23 मई 2003

सं० 4-1/91-मशी० (प्रशा०)—राष्ट्रपति, श्री हिम्मत सिंह की दिनांक 26-2-1992 से फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में स्थायी रूप से वरिष्ठ प्रशिक्षण अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' 10000-15200 रु० के वेतनमान में) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एच० सी० बतरा, अवर सचिव

तारीख 28 मई 2003

सं० 12-6/2000-मशी० प्रशा०—राष्ट्रपति, श्री हिम्मत सिंह एल० टी० ओ० (ई०) को, दिनांक 10-2-2003 से दक्षिणी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण संस्थान, अन्नतपुर (आंध्र प्रदेश) में तदर्थ आधार पर एक वर्ष अथवा नियमित पदधारी के पदभार ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, 12000-375-16500 रुपये के वेतनमान में निदेशक (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्र, अतनुसचिवीय) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एच० सी० बतरा अवर सचिव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 जून 2003

सं० 16-5/2002-युवा सेवा-3 इस मंत्रालय की दिनांक 5 जुलाई 2002 की समसंख्यक अधिसूचना का आंशिक संशोधन करते हुए, राष्ट्रपति श्रीमती मनीष कीठेकर को, युवाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग में स्थायी सदस्य के रूप में, संयुक्त सचिव, भारत सरकार के पद एवं वेतनमान (18400-500 22400 रुपये) में सहर्ष नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति 1 मई, 2002 से अर्थात् जिस तारीख को उन्होंने विकल्प लिया था, से प्रभावी होगी।

(एच० एस० किंगरा) निदेशक

सं० 16-5/2002-युवा सेवा-3—इस मंत्रालय की दिनांक 5 जुलाई 2002 की समसंख्यक अधिसूचना का आंशिक संशोधन करते हुए, राष्ट्रपति श्री सु० श्रीनिवासन को, युवाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग में स्थायी सदस्य के रूप में, संयुक्त सचिव, भारत सरकार के पद एवं वेतनमान (18,400-500-22,400 रु०) में सहर्ष नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति 30 जुलाई, 2002 से अर्थात् जिस तारीख को उन्होंने विकल्प लिया था, से प्रभावी होगी।

एच० एस० किंगरा, निदेशक

सं० 16-5/2002-युवा सेवा-3—इस मंत्रालय की दिनांक 5 जुलाई, 2002 की समसंख्यक अधिसूचना का आंशिक संशोधन करते हुए, राष्ट्रपति श्री के० दौलागुप्ता को, युवाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग में स्थायी सदस्य के रूप में, संयुक्त सचिव, भारत सरकार के पद एवं वेतनमान (18,400-500-22,400 रु०) में सहर्ष नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति 17 मई, 2002 अर्थात् जिस तारीख को उन्होंने विकल्प लिया था, से प्रभावी होगी।

एच० एस० किंगरा, निदेशक

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 2003

सं० 3-1/2002-सी० डब्ल्यू० जी०—राष्ट्रपति, निम्न-लिखित सहायक अभियंताओं (सिविल) को डाक-तार भवन-निर्माण कार्य (समूह 'क') सेवा के कार्यपालक अभियंताओं (सिविल) के ग्रेड में 10,000-325-15,200/- रु० के वेतनमान में 25-2-2003 से अगले आदेशों तक नियमित आधार पर पदोन्नत करते हैं :—

क्रम सं० नाम

(सर्वश्री)

1. कैलाश चन्द्र
2. हिमकर खोसला
3. एन० टी० वलानी
4. ए० के० सुतीजा
5. जी० एम० रंजय
6. बी० साहा
7. ए० के० राम (अ० जा०)
8. ए० के० मांगरे (अ० जा०)
9. ए० के० वर्गीज (अ० जा०)
10. सी० एस० सतपुते (अ० जा०)
11. एन० के० सिंह (अ० जा०)
12. एस० चेलापन (अ० जा०)

1	2
	सर्व श्री
13.	ए० के० चक्रवर्ती
14.	एन० रतिनासामी
15.	एस० पी० राम (अ० जा०)
16.	आर० सी० अरोड़ा
17.	ए० एम० देशपांडे
18.	पी० वी० मोहनन
19.	एम० एस० सिद्दिकी
20.	आर० सी० गुप्ता
21.	जे० डी० मोदी
22.	एस० के० सिन्हा
23.	एस० के० भारद्वाज
24.	आर० के० गुप्ता
25.	एस० एन० मुद्गल
26.	पी० कैलाशम
27.	मंगतू राम (अ० जा०)
28.	पी० के० साहा (अ० जा०)
29.	एस० सी० समंदर (अ० जा०)
30.	शॉमस इक्का (अ० ज० जा०)
31.	पी० प्रसाद राव (अ० ज० जा०)
32.	के० सी० नायक (अ० ज० जा०)
33.	एस० के० जै
34.	एस० के० कौल
35.	आर० के० गंगोपाध्याय
36.	आर० गणपति
37.	एस० के० गुप्ता
38.	जी० सीतापति
39.	एस० के० बसु
40.	राजा बलानी
41.	जी० एस० तुली
40.	पी० महतो
43.	पी० साहा
44.	एम० के० बसाक

2. कार्यपालक अभियंता (सिविल) के ग्रेड में उपरोक्त अधिकारियों की नियमित पदोन्नति, सिविल रिट याचिका सं० 2492/2002 के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 22-4-2002 के आदेश के विरुद्ध श्री डी० के० बिजु बनाम भारत संघ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विभाग द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका के अन्तिम निर्णय तथा कर्नाटक उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं० 35598/2003, 34599/2000

तथा मद्रास उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं० 17603/2001 व इस आदेश को जारी करने की तारीख को लाभ्यत कार्यपालक अभियंता (सिविल) के ग्रेड में पदोन्नति/वरिष्ठता के मामले पर कोई अन्य ओए/रिट याचिका के निर्णय के अधीन हैं।

सुनील कुमार चुध, अवर सचिव (सी डब्ल्यू जी)

डाक विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 मई 2003

सं० 13-18/2003-एसपीजी—डाक विभाग में कार्यरत श्री के० एल० वासन, सहायक निदेशक (योजना) सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 31 मई, 2003 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

आर० एस० यादव, सहायक महानिदेशक (एस० जी० पी०)

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई 2003

सं० ए-32014/1/2000-स्था०-II—राष्ट्रपति श्री एस० सी० कम्बोज, मुख्य प्रारूपकार, को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, में दिनांक 20-5-2003 (पूर्वाह्न) से तकनीकी सहायक के पद पर नियमित आधार पर रु० 6500-200-10500 के वेतनमान में नियुक्त करते हैं।

एन० सी० कौशिक, अवर सचिव

दिनांक 30 मई 2003

सं० ए-32011/2/2003-स्था०-II—राष्ट्रपति श्री आर० जी० गुप्ता, प्रारूपकार श्रेणी I, को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली में दिनांक 28-5-2003 (पूर्वाह्न) से मुख्य प्रारूपकार के पद पर तदर्थ आधार पर रु० 6500-200-10500 के वेतनमान में नियुक्त करते हैं।

एन० सी० कौशिक, अवर सचिव

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई 2003

सं० ए-12028/2/2003-स्था०—राष्ट्रपति, कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग, स्थापना अधिकारी का कार्यालय के का० शा० सं० 1/3/2003-ई० ओ० (एम० एम० I) दिनांक 26-5-2003 के अनुसरण में मी० शकील अख्तर, आई०पी०एस (टी एन : 89) को निदेशक के स्तर पर दिनांक 30-1-2003 (पूर्वाह्न) से पोत परिवहन मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा) के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में आगामी तीन वर्ष अर्थात् 29-1-2006 तक अथवा जब तक वह पोत परिवहन मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी रहते हैं या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हों, नियुक्त करते हैं।

सुधेश कुमार शाही, अवर सचिव

महासागर विकास विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 मई 2003

सं० मविबि-18/7/98-स्थापना—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री पी० नारायणन (सीएसएस सं० 2468) को वर्ष 1991 की प्रचुर सूची में उनका नाम शामिल होने के परिणामस्वरूप उन्हें 1-7-1991 से नियमित अवर सचिव (सीएसएस के ग्रेड I) के बतौर नियुक्त करते हैं।

2. अवर सचिव के बतौर श्री पी० नारायणन की नियुक्ति, डॉ० ए०आर० गोयल और अन्य तथा श्री आर०के० ओझा और अन्य बनाम भारत संघ द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ में दर्ज ओए सं० 2274/2001 और 2467/2001 में लिए जाने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

3. अवर सचिव के बतौर उनकी नियमित नियुक्ति के परिणामस्वरूप उनका वेतन 1-7-91 से कल्पित रूप से नियत किया जाएगा। तथापि, कल्पित पुनः नियतन की वजह से उन्हें उच्चतम वेतन का वास्तविक लाभ कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा केन्द्रीय तौर से निकाले गये आदेश के तहत उनकी अवर सचिव के बतौर तदर्थ आधार पर प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से प्रोद्भूत होगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा तदर्थ आधार पर केन्द्रीय तौर पर निकाले गए आदेश से अवर सचिव के ग्रेड में वे अपनी वास्तविक नियुक्ति तारीख से वेतन के पुनः नियतन की वजह से बकाया राशि के हकदार होंगे। इस के अलावा वे मूल नियम 22 के प्रावधान के तहत यथा प्रदत्त वेतन नियतन के विकल्प के लाभ के भी हकदार होंगे।

बी०एल० कुरील, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 2003

सं० पी०एफ०/818/आई०आई०एस—भारतीय सूचना सेवा, समूह 'क' के कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री डोलन राम, 29 नवम्बर 2002 के पूर्वाह्न में सरकारी सेवा से स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्त हो गए हैं।

श्री डोलन राम ने उसी तारीख से संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, सिलीगुड़ी के संयुक्त निदेशक के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

अशोक कुमार, उप सचिव

दिनांक 20 मई 2003

सं० पी० एफ०/932/आई०आई०एस०—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर भारतीय सूचना सेवा, समूह 'क' के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री पी० जॉन चर्चिल, 30 अप्रैल, 2003 की अपराह्न को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

2. श्री पी० जॉन चर्चिल ने उसी तारीख से अपर महा-निदेशक (समाचार), दूरदर्शन (समाचार) नई दिल्ली के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

अशोक कुमार, अवर सचिव

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(शहरी विकास विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 26 मई 2003

सं० के-11011/13/2003-डीडीए—मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्री डी० बी० गुप्ता, आई०ए०एस० (राजस्थान : 83), जो वर्तमान में शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के अंतर्गत निदेशक के स्तर पर दिल्ली विकास प्राधिकरण में आयुक्त (आवास) के पद पर कार्यरत हैं, को श्री ए० रामास्वामी, आई०ए०एस० (कर्नाटक : 74) के स्थान पर इस मंत्रालय के अधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रधान आयुक्त के पद पर (संयुक्त सचिव स्तर पर) 18400-22400 रु० के वेतनमान में उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति सेवा अवधि की शेष अवधि के लिए, अर्थात् 14-5-2005 तक या अगले आदेशों तक के लिए, जो भी पहले हो, नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया है।

एस० एन० गुप्ता, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 4th June 2003

No. RS/3(viii)/2003/23-Perl.—On being relieved from the Ministry of Home Affairs, Shri Rajeev Issar, Parliamentary Interpreter has resumed duties in this Secretariat with effect from the forenoon of the 4th June, 2003.

P. R. GUHA ROY, Dy. Secy.

New Delhi-110001, the 6th June 2003

No. RS/1454/Estt.(P).—Shri Rajeev Issar, permanent Parliamentary Interpreter has been relieved of his duties in this Secretariat from the afternoon of the 6th June, 2003 to enable him to take up the appointment of Programme Associate in UNDP for a period of one year on foreign service terms.

Leave salary contribution and Pension contribution towards the period of his deputation shall be contributed by Shri Issar himself. The details of contributions in this regard shall be calculated and intimated to Shri Issar in due course.

J. S. NEGI, Under Secy.

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 2nd June 2003

No. PF. 1036(3)/AN-I/GN-4935/2003.—On attaining the age of superannuation, Shri Om Prakash Arora, Under Secretary has retired from service with effect from the afternoon of 31st May, 2003.

M. RAJAGOPALAN NAIR, Jt. Secy.

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 30th May 2003

No. F. 1(8)/2002-Admn.—On attaining the age of superannuation, Shri L. M. Goyal, IAS (HY : 1966), Secretary Ministry of Parliamentary Affairs is retiring from Government Service w.e.f. the afternoon of 31-05-2003.

D. R. TIWARI, Addl. Secy.

MINISTRY OF STATISTICS & P. I

New Delhi-1, the 7th May 2003

No. A-32014/2/2003-Ad-I.—In pursuance of this Ministry's order No. 12015/2/JAG/2003-ISS dated 2-4-2003 the president is pleased to appoint the following Senior Time Scale (STS) Officers of ISS to Junior Administrative Grade (JAG) of the service on regular basis w.e.f. 2-4-2003 in the pay scale of Rs. 12,000—16,500/-, until further orders.

S. No., Name & Date of Joining

1. Shri Pala Singh Tanck—2-4-2003
2. Shri Sher Singh—2-4-2003
3. Shri Rakesh Kumar—2-4-2003
4. Shri Gurpiar Singh Shekhon—2-4-2003
5. Shri Yogendra Singh—2-4-2003
6. Shri T. Bhasharan—2-4-2003
7. Shri A. C. Sharma—2-4-2003
8. Shri Sunil Jain—2-4-2003
9. Shri S. P. Gera—2-4-2003
10. Shri Mamta Saxena—2-4-2003
11. Shri Vidya Prakash—2-4-2003
12. Smt. G. S. Lakshmi—2-4-2003

S. C. DAS, Sr. Analyst

ELECTION COMMISSION

New Delhi-110001, the 5th June 2003

No. 193/22/3/2003 (BCV)/6468.—On attaining the age of superannuation, Shri B. C. Verma, Section Officer in the Election Commission of India, retired from service w.e.f. the afternoon of 31-05-2003.

NARENDRA N. BUTOLIA, Under Secy.

No. 193/22/2/2003 (TV)/6470.—On attaining the age of superannuation, Shri Thomas Varghese, Section Officer in the Election Commission of India, retired from service w.e.f. the afternoon of 31-05-2003.

NARENDRA N. BUTOLIA, Under Secy.

MINISTRY OF LAW & JUSTICE**(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)**

New Delhi, the 28th May 2003

No. 32013/2/94-Admn. IV (LA).—Pursuant to the Department of Personnel & Training's O. M. No. 31/7/2002-FO (MM-I) dated 6th May, 2003, the President is pleased to appoint Smt. Ratna Lalitha, Under Secretary (In-situ) in Department of Heavy Industries of CSS cadre of Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce & Industry as Under Secretary on ad-hoc basis in CSS cadre of the Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs for a period of seven years or till the date of her superannuation, whichever events takes place earlier w.e.f. the forenoon of 22nd May 2003 and until further orders.

PARKASH CHANDRA, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

New Delhi, the 1st May 2003

No. F. 2/6/2001-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Krishna Kumar, as Joint Director, Department of Development of Northern Eastern Region w.e.f. the Forenoon of 3rd April, 2003 in the pay scale of Rs. 12000-375-16500/- until further orders.

T. K. MURUGAN, Dy. Secy.

The 8th May 2003

No. F. 2/71/2003-DONER.—The President is pleased to appoint Shri H. R. Karara, as Under Secretary with effect from 7-5-2003 (F/N) in the pay scale of Rs. 10000-325-15200/- until further orders.

T. K. MURUGAN, Dy. Secy. (Admn.)

MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. & PENSIONS**(DEPTT. OF PERSONNEL AND TRAINING)**

New Delhi, the 9th June 2003

No. 14012/4/2003-AIS.III.—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Himachal Pradesh with effect from the dates shown against them :—

S. No., Name, Batch and Date of confirmation

1. Shri Pushpendra Rajput, 1999—19-9-2001.
2. Dr. Amandeep Garg, 1999—19-9-2001.

AQEEL AHMAD, Dy. Secy.

New Delhi, the 9th June 2003

No. 403/2/2003-AVD.IV.—The President is pleased to appoint Shri C. M. Basavarya, earlier working as Consultant in the Committee on Reforms of Criminal Justice under the Ministry of Home Affairs as Officer on Special Duty in the Justice S. N. Phukan Commission of Inquiry in the rank of Additional Secretary to the Government of India w.e.f. forenoon of 20-5-2003, on contract basis, in relaxation of age limit and other related rules, and co-terminus with the term of the Commission.

JUGAL KISHORE, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF REVENUE)
INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE ESTABLISHMENTS

New Delhi, the 27th May 2003

No. 7/2002 (32012/10/99-AD.II).—The President is pleased to grant Non-Functional Selection Grade (Rs. 14300-400-18300/-) in the Junior Administrative Grade to Shri S. N. Singh, an IC&CES officer with effect from 6-6-2000 (i.e. from the date of his immediate junior, Shri Rajan Suri was granted NFSG) and until further orders.

2. The order has no bearing on the inter-se-seniority of officers in the Junior Administrative Grade.

K. KIPGEN, Under Secy.

The 28th May 2003

No. 08 of 2003 (F. No. A-38012/6/2003-AD-II).—The President is pleased to accept the voluntary retirement of Shri V. K. Gupta, Deputy Commissioner from the Indian Customs and Central Excise Service, Group "A" w.e.f. 01-06-20003 (F/N).

K. KIPGEN, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 9th June 2003

F. No. 2/10/98-COIN.I.—In continuation of this Deptt.'s Notification of even number dated 22-10-2002, the President is pleased to extend the appointment of Shri Madhav Rao and Shri B. P. Chakraborty, Works Manager of India Government Mints respectively as Senior Works Manager for a further period of one year w.e.f. 31-3-2003 or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment will not confer on the officers any right for regular appointment or seniority.

APARAJITA CHOWDHURY, Under Secy.

(BANKING DIVISION)

New Delhi, the 30th May 2003

CORRIGENDUM

No. 8/1/02-DRT.—The following admendment may please be made in this Division's Notification of even number dated 28th February, 2003;

In line 1 of the Notification—

For

Sh. Shiv Kumar Bairwa

Read

Sh. Shiv Ram Bairwa

S. P. S. SANGWAN, Under Secy.

The 4th June 2003

F. No. 23/1/02-DRT.—In exercise of the powers conferred under Sub-Section (2) of Section 4 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 Sh. T. Ravishankar, Presiding Officer, DRT, Hyderabad is authorized to discharge the functions of Presiding Officer, DRT, Bangalore and DRT, Ernakulam in addition to his own charge during the leave period of Sh. K. Satyanand w.e.f. 25th May, 2003 to 8th July, 2003 or until further orders and without any additional remuneration.

S. P. S. SANGWAN, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 10th June 2003

No. A-12025/1/98-EG.—The President is pleased to appoint the following Officers to the Junior Time Scale of Indian Audit and Accounts Service with effect from the dates noted against each :—

S. No., Name and with effect from

S/Shri/Smt.

1. K. S. Gopinath Narayan—5-9-1996
2. Ms. Ritika Bhatia—7-9-1997
3. Ms. Anjali Singh—5-9-1996
4. Manish Kumar—5-9-1996
5. Ms. Monika Verma—5-9-1996
6. Purushottam Tiwari—25-8-1997
7. Sanjeev Kumar—27-12-1996 (A/N)
8. Bibhudatta Basantia—7-9-1997 (A/N)
9. Ms. Tanuja Subodh Mittal—4-9-1996 (A/N)
10. V. A. Patwardhan—4-9-1996 (A/N)
11. Keral Prasad Yadav—7-9-1997
12. Jaydeep Kumar D. Tatamiya—7-9-1997
13. K. P. Anand—7-9-1997
14. Abdul Rauf Ansari—4-9-1997
15. Ms. Shanti Priya S.—6-9-1997
16. D. R. Patil—7-9-1997
17. Ms. Madhumita Mondal—7-9-1997 (A/N)
18. Ms. Anita Shah—5-9-1996
19. Ms. Anim Cherian—5-9-1996 (A/N)
20. C. Nedunchezian—4-9-1996
21. S. Sunil Raj—5-9-1996
22. Pravindra Yadav—1-9-1997
23. L. Hangsing—7-9-1997

2. All the 23 Officers are working in the Offices under the C&AG of India.

MAHENDRA KUMAR, Dy. Secy.

No. A-12025/3/2003-EG.—The President is pleased to appoint the following Officers to the Junior Time Scale of Indian Audit and Accounts Service with effect from the dates noted against each :—

S. No., Name and with effect from

S/Shri/Smt.

1. Ms. Prachi Misra—2-9-2001
2. Amitabh Prasad—2-9-2001
3. Ms. Aleti Madhav—2-9-2001
4. Shourjo Chatterjee—2-9-2001
5. Ms. Mani K.—2-9-2001
6. Ms. Arcana Gurjar—2-9-2001
7. Subu R.—2-9-2001
8. Sanjay Kumar Kaushal—18-12-2001

2. All the 8 Officers are working in the Offices under the C&AG of India.

MAHENDRA KUMAR, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi, the 6th June 2003

No. PFG (653)/2002-AD.II.—On his selection through the Union Public Service Commission by direct recruitment, the President is pleased to appoint Shri Vishnu Pandurang Katkar in the Junior Time Scale (Accounts Branch) of Indian Company Law Service with effect from 29-10-2002 (FN).

2. In exercise of powers conferred by sub-Section (2) of Section 609 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government have appointed Shri V. P. Katkar, a Junior Time Scale (Accounts Branch) Officer of Indian Company Law Service to officiate as in the Assistant Registrar of Companies Office of Registrar of Companies, Delhi, with effect from the forenoon of 29-10-2002, until further orders.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

No. PFG(656)/2002-AD.II.—On her selection through the Union Public Service Commission by direct recruitment, the President is pleased to appoint Smt. S. Meenakshi in the Junior Time Scale (Accounts Branch) of Indian Company Law Service with effect from 25-11-2002 (FN).

2. In exercise of powers conferred by sub-Section (2) of Section 609 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government have appointed Smt. S. Meenakshi, a Junior Time Scale (Accounts Branch) Officer of Indian Company Law Service to officiate as Assistant Registrar of Companies in the Office of Registrar of Companies, Chennai with effect from the forenoon of 25-11-2002, until further orders.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

No. PFG(659)/2002-AD.II.—On his selection through the Union Public Service Commission by direct recruitment, the President is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar Gupta in the Junior Time Scale (Accounts Branch) of Indian Company Law Service with effect from 24-10-2002 (FN).

2. In exercise of powers conferred by sub-Section (2) of Section 609 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government have appointed Sh. Sanjay Kumar Gupta, a Junior Time Scale (Accounts Branch) Officer of Indian Company Law Service to officiate as Assistant Registrar of Companies in the Office of RoC, Karnataka Bangalore with effect from the forenoon of 24-10-2002, until further orders.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

No. PFG(661)/2002-AD-II.—On his selection through the Union Public Service Commission by direct recruitment, the President is pleased to appoint Shri Mano Ranjan Das in the Junior Time Scale (Accounts Branch) of Indian Company Law Service with effect from 30-10-2002 (FN).

2. In exercise of powers conferred by sub-Section (2) of Section 609 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government have appointed Shri Mano Ranjan Das, a Junior Time Scale (Accounts Branch) Officer of Indian Company Law Service to officiate as Assistant Registrar of Companies in the Office of Registrar of Companies, Jalandhar with effect from the forenoon of 30-10-2002, until further orders.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

**MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)**

New Delhi, the 26th May 2003

No. 6/2003 (No. A-42011/36/2000-E.I.).—Consequent on his nomination by the Department of Personnel & Training for making additions to the Select List of Section Officers' Grade for the year 2001, on the basis of Combined Limited Departmental Examination, 2001, the President is pleased to appoint Shri Chaman Lal Guleria, a permanent Assistant of the cadre of Department of Commerce, to the grade of

Section Officer in the cadre of Department of Commerce w.e.f. 26th May, 2003 (FN).

2. Shri Chaman Lal Guleria, Section Officer is posted to States Cell vice Shri Pandey Pradeep Kumar Section Officer.

N. P. DWIVEDI, Dy. Secy.

New Delhi, the 4th June 2003

No. 12/15/93-EI&EP.—In exercise of powers conferred by Section 3 of the Enemy Property Act, 1968, the President is pleased to appoint Shri S. S. Sandhu, Joint Director General of Foreign Trade, Mumbai as Custodian of Enemy Property for India, Mumbai in addition to his own duties with effect from 29th May, 2003 (Forenoon) vice Mrs. Ruby Srivastava, proceeded on training, until further orders.

RAJ SINGH, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

New Delhi, the 19th May 2003

No. A-12022/1 2003-EI.—The President is pleased to appoint Shri Umesh Kumar, IAS (RJ : 83) as Joint Secretary in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, with effect from the forenoon of 19th May, 2003, until further orders.

J. J. KAUR, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 28th May 2003

No. A-12011/10/93-Estt.—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri Pankaj Vithal as Sr. Analyst (WS) in the Ministry of Petroleum & Natural Gas from 01-7-2002 to 28-2-2003. After expiry of the above mentioned extension, Shri Pankaj Vithal has reverted back to his parent post of Section Officer in the cadre of Ministry of Petroleum & Natural Gas w.e.f. 01-3-2003.

L. S. NEGI, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 23rd May 2003

No. 2(10)/2001-Estt. ().—On being nominated by the Deptt. of Personnel and Training on the basis on results of Combined Limited Department Competitive Examination, 2001 the President is pleased to include Shri Darshan Kumar Solanki, (Rank No. 24), permanent Assistant in the CSS cadre of the Planning Commission in the 2001 Select List of Section Officers of the CSS cadre of the Ministry of Steel against the departmental examination quota w.e.f. 23rd May, 2003 (FN).

2. He is hereby appointed as Section Officer in the Ministry of Steel on a regular basis from the same date.

BABOO RAM, Under Secy.

MINISTRY OF DISINVESTMENT

New Delhi-110003, the 5th June 2003

No. 20011/52/2001-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Milan Brahmachary, a regular Private Secretary (Grade "A&B" merged) of the Central Secretariat Stenographers' Service cadre of the Ministry of Home Affairs as Additional Private Secretary to Minister of Communication & Information Technology and Minister of Disinvestment in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 10th April, 2003 on co-terminus basis or until further orders, whichever is earlier.

V. P. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi, the 30th May 2003

No. A-12012/2/03-P.II.—The President is pleased to appoint Shri M. Sahu, IAS (GJ:80), as Joint Secretary in the scale of Rs. 18400—22400/- in the Ministry of Environment & Forests with effect from the forenoon of the 30th May, 2003.

J. P. SINGH, Director

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 4th June 2003

No. A-12025/7/1996-CHS.IV.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sunil Ranga to the post of Specialist Grade II in the Non-Teaching Specialist sub-cadre of Central Health Service on probation and to post him as Pathologist at Safdarjung Hospital, New Delhi w.e.f. the forenoon of the 29th March 1996 and until further orders.

U. C. NANGIA, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 4th June 2003

No. A-12025/16/2001-CHS. IV.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Harmohander Singh Isser to the post of Specialist Grade-II of the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Service, on probation and to post him as Cardiologist at Safdarjung Hospital, New Delhi in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- w.e.f. the forenoon of the 13-11-2002 and until further orders.

U. C. NANGIA, Dy. Secy.

New Delhi-110011, the 4th June 2003

No. A. 12025/85/96-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Saibal Bhattacharyya to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- in a temporary capacity w.e.f. the forenoon of the 27th February, 1998 until further orders. Dr. Saibal Bhattacharyya is posted as Medical Officer under Ministry of Labour, New Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/84/97-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Satyajit Sen to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- in a temporary capacity w.e.f. the forenoon of the 17th March 1998 until further orders. Dr. Satyajit Sen is posted as Medical Officer under Ministry of Labour, New Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/28/2000-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. R. Devananda to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- in a temporary capacity w.e.f. the forenoon of the 2nd March 2001 until further orders. Dr. R. Devananda is posted as Medical Officer under Central Govt. Health Scheme, Mumbai.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 5th June 2003

No. C. 14011/26/97-CHS.I.—Consequent upon acceptance of her resignation Dr. (Smt.) Rama Srinivasan, is deemed to have relinquished the charge of the post of Senior Medical Officer of Central Health Scheme under Govt. of National Capital Territory of Delhi on the forenoon of 14-1-2002.

The period from 28-1-1996 to 14-1-2002 (F/N) has been treated as Dies-Non.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 5th May 2003

No. 12022/3/2003E.-I.—The President is pleased to appoint Shri Ajoy Mehta, IAS (MH:84) as Director in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation) in the scale of pay of Rs. 15,100-400-18,300/- w.e.f. the forenoon of 1-5-2003 for the balance period of his Central deputation tenure i.e. upto 2-4-2005 or until further orders, whichever event takes place earlier.

K. D. UPRETI, Under Secy.

New Delhi, the 23rd May 2003

No. 4-1/91-My(Admn.).—The President is pleased to appoint Shri Himat Singh, substantively to the post of Senior Training Officer (G.C.S. Group 'A' in the pay scale of Rs. 10000—15200/-) at Farm Machinery Training and Testing Institute w.e.f. 26-2-1992.

H. C. BATRA, Under Secy.

The 28th May 2003

No. 12-6/2002.My(Adm.).—The President is pleased to appoint Shri Himat Singh, STO(E) as Director (G.C.S. Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial) on adhoc basis for one year or till a regular incumbent joins, whichever is earlier, at Southern Region Farm Machinery Training & Testing Institute, Anantapur (AP) in the scale of Rs. 12000-375-16500/- w.e.f. the forenoon of 10-2-2003.

H. C. BATRA, Under Secy.

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS

New Delhi, the 3rd June 2003

No. 16-5/2002-YS. III.—In partial modification of this Ministry's notification of even number dated 5th July, 2002, the President is pleased to appoint Smt. Maneesha Kothekar as a permanent member in the National Commission for Youth in the rank and pay scale of Joint Secretary to the Government of India (Rs. 18400-500-22400) w.e.f. 1st May, 2002 i.e. the date when she exercised option.

H. S. KINGRA, Director

No. 16-5/2002-YS. III.—In partial modification of this Ministry's notification of even number dated 5th July, 2002, the President is pleased to appoint Shri Su Srinivasan as a permanent member in the National Commission for Youth in the rank and pay scale of Joint Secretary to the Government of India (Rs. 18400-500-22400) w.e.f. 30th July, 2002. i.e. the date when he exercised option.

H. S. KINGRA, Director

No. 16-5/2002-YS. III.—In partial modification of this Ministry's notification of even number dated 5th July, 2002, the President is pleased to appoint Shri K. Daulagupta as a

permanent member in the National Commission for Youth in the rank and pay scale of Joint Secretary to the Government of India (Rs. 18400-500-22400) w.e.f. 17th May, 2002, i.e. the date when he exercised option.

H. S. KINGRA, Director

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi, the 13th March 2003

No. 3-1/2002-CWG.—The President has been pleased to promote the following Asstt. Engineers (Civil) to the grade of Executive Engineer (Civil) of the P&T Building Works (Group 'A') Service in the pay scale of Rs. 10000-325-15200/- on regular basis w.e.f. 25-2-2003 and until further orders :—

S. No. and Name

(S/Shri)

1. Kailash Chandra
2. Himkar Khosla
3. N. T. Balani
4. A. K. Satija
5. G. M. Rangaiah
6. B. Saha
7. A. K. Ram (SC)
8. A. K. Magare (SC)
9. A. K. Verghese (SC)
10. C. S. Satpute (SC)
11. N. K. Singh (SC)
12. S. Chellapan (SC)
13. A. K. Chakraborty
14. M. Rathinasamy
15. S. P. Ram (SC)
16. R. C. Arora
17. A. M. Deshpande
18. P. V. Mohanan
19. M. S. Siddiqui
20. R. C. Gupta
21. J. D. Modi
22. S. K. Sinha
23. S. K. Bhardwaj
24. R. K. Gupta
25. S. N. Mudgal
26. P. Kailasam
27. Mangtu Ram (SC)
28. P. K. Saha (SC)
29. S. C. Samadar (SC)
30. Thomas Ekka (ST)
31. T. Prasada Rao (ST)
32. K. C. Nayak (ST)
33. S. K. Jain
34. S. K. Kaul
35. P. K. Gangopaadhyay
36. R. Ganapathy
37. S. K. Gupta
38. G. Seethapati
39. S. K. Basu
40. Raja Balani
41. G. S. Tuli
42. P. Mahto
43. P. Saha
44. M. K. Basak

2. Regular promotion of the above officers to the grade of Executive Engineer (C) is subject to the final outcome of SLP filed by the Deptt. in the Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Sh. D. K. Viji Vs. U.O.I. against the orders dated 22-4-2002 passed by the Hon'ble High Court

of Delhi in CWP No. 2492/2002 and also the outcome of the WP No. 34598/2000, 34599/2000 filed in Karnataka High Court and WP No. 17603/2001 in the High Court of Madras and any other OA/WP on the matter of promotion/seniority in the grade of EE (C) on the date of issue of this order.

SUNIL KUMAR CHUGH, US (CWG)

DEPARTMENT OF POSTS

New Delhi-110001, the 30th May 2003

No. 13-18/2003-SPG.—Shri K. L. Wassan, Assistant Director (Planning), Department of Posts will be retiring from Government service with effect from 31st May, 2003 (A/N) on attaining the age of superannuation.

R. S. YADAV, Asstt. Director General (SGP)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 29th May 2003

No. A-32014/1/2000-E. II.—The President is pleased to appoint Shri S. C. Kamboj, Chief Draftsman to the post of Technical Assistant on regular basis in the Ministry of Road Transport & Highways in the scale of pay of Rs. 6500-200-10,500/- w.e.f. 20th May, 2003.

N. C. KAUSHIK, Under Secy.

The 30th May 2003

No. A-32011/2/2003-E. II.—The President is pleased to appoint Shri R. G. Gupta, Draftsman Grade I to the post of Chief Draftsman on adhoc basis in the Headquarter's Office, Ministry of Road Transport & Highways, New Delhi in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- w.e.f. 28-05-2003.

N. C. KAUSHIK, Under Secy.

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 29th May 2003

No. A-12028/2/2003-Estt.—In pursuance of Deptt. of Personnel & Training, Office of the Establishment Officer's OM No. 1/3/2000-EO (MM.I) dated 26-5-2003, the President is pleased to appoint Sh. Md. Shakeel Akhter, IPS (TN : 89) as Officer on Special Duty to Minister for Shipping (Sh. Shatrughan Sinha) at the level of Director w.e.f. 30th January, 2003 (FN) for a period of three years i.e. upto 29-1-2006 or till he ceases to function as OSD to Minister(S) or until further orders, whichever event occurs the earliest.

S. K. SHAHI, Under Secy.

DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT

New Delhi-110003, the 28th May 2003

No. DOD-18/7/98-Estt.—The President is pleased to appoint Shri P. Narayanan (CSL No. 2468) a Permanent Section Officer of Central Secretariat Service (CSS) as regular Under Secretary (Grade I of CSS) w.e.f. 1-7-1991 consequent upon his inclusion in the Select List for the year 1991.

2. The appointment of Shri P. Narayanan as Under Secretary shall be subject to the final decision in the OA Number 2274/2001 and 2467/2001 filed in the CAT, Principal Bench by Dr. A. R. Goyal and others and Shri R. K. Ojha and others Vs Union of India.

3. Consequent upon his regular appointment as Under Secretary, his pay will be fixed notionally w.e.f. 1-7-91. However, the actual benefit of higher pay on account of notional re-fixation will accrue from the date of his initial appointment as Under Secretary on ad-hoc basis ordered centrally by the Department of Personnel and Training. The Officer would be entitled to arrears on account of re-fixation of pay from the dates of his actual appointment to the grade of Under Secretary on adhoc basis ordered centrally by

DOPT. In addition, he shall also be entitled to exercise the benefit of option for fixation of pay as provided under the provision of FR-22.

B. L. KUREEL, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 14th May 2003

No. PF/818/IIS.—Shri Dholan Ram, a Junior Administrative Grade (NFSG) Officer (IRLA No. 8132) of IIS Group A retired voluntarily from Govt. service on the afternoon of 29th November, 2002.

2. Shri Dholan Ram relinquished charge of the post of Joint Director, DFP, Siliguri on the same date.

ASHOK KUMAR, Dy. Secy.

The 20th May 2003

No. PF/932/IIS.—On attaining the age of superannuation Shri P. John Churchill, a Senior Administrative Grade Officer of IIS Group A retired from Govt. service on the afternoon of 30th April, 2003.

2. Shri P. John Churchill, relinquished charge of the post of Additional Director General (News), Doordarshan (News), New Delhi on the same date.

ASHOK KUMAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT & POVERTY ALLEVIATION

(DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT)

New Delhi, the 26th May 2003

No. K-11011/13/2003-DDIA.—The Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointment of Shri D. B. Gupta, IAS (RJ : 83), presently working as Commissioner (Housing), DDA, at the level of Director under the Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation, as Principal Commissioner, in the Delhi Development Authority (Joint Secretary level) under this Ministry, in the pay scale of Rs. 18400—22400/—, for the balance period of his Central deputation tenure i.e. upto 14-5-2005 or until further orders, whichever event takes place earlier, vice Shri A. Ramaswamy, IAS (KN : 74).

S. N. GUPTA, Under Secy.